

आपसे जानना चाहूंगा कि मीराज से पंढरपुर लाइन का आपने क्या सोचा है जहाँ से ज्यादा से ज्यादा आपकी पैदायश होती है और जहाँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है और जहाँ ज्यादा से ज्यादा यात्री चलते हैं ? उस लाइन को आप ब्राड गेज करने की क्या सोच रहे हैं ? आपने कहा था कि वह भी सोचा जायेगा । क्या फोर्थ प्लान में उस काम को लिया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : उसके मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ है । अभी जिनको ज्यादा इम्पार्टेंट सेक्शन समझा गया, पहले उनको लिया गया है ।

SHRI M. M. DHARIA: The hon. Minister just now stated that the report will be received very soon. May I know whether it will be received within one or two months: Otherwise how will it be possible to include this scheme in the Fourth Plan?

SHRI SHAM NATH: We have already included this scheme in the tentative proposals. As soon as the traffic survey report is received from the Southern Railway it will be examined expeditiously and whatever we have decided tentatively we will then confirm.

SHRI T. V. ANANDAN: Is it not the policy of the Government for gradual conversion of metre gauge into broad gauge and to have one gauge all over Indian Railways?

SHRI SHAM NATH: It is not so much a question of policy as of availability of funds. Whatever lines we think are necessary in the interests of the country, they are taken up for being converted into broad gauge.

IMPORT OF WOOLLEN TEXTILE MACHINERY

*37. SHRI ABDUL GHANI: will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to

ban the import of woollen worsted textile machinery;

(b) if so, the details of the proposal and when it is likely to be effected; and

(c) whether any instructions have been issued to the mills regarding import of woollen worsted textile machinery pending the decision taken in this matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI S. V. RAMASWAMY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The existing capacity for the manufacture of worsted spindle machinery is very much short of demand. In consultation with the manufacturers of indigenous machinery, mills are being allowed to import machinery subject to the condition that for every two imported machines, one indigenous machine will be purchased. No-body is allowed to import as above till he places firm orders on indigenous manufacturers. This fully takes into account the maximum production capacity of the only two manufacturers of woollen textile machinery in the country.

شری عبدالغنی : کہا وزیر صاحب
فرمائیں گے کہ ان دنوں جو مشینری
(اسپینڈنگ میلنگ) یہاں بلندی میں ان
کو کوئی اجازت دی گئی ہے - کسی
فیکٹری کو اسپینڈنگ مل کو کہ وہ باہر
سے پلانٹ یہاں اسموٹ کریں اگر دی
گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے -

†[श्री अब्दुल गनी : क्या वजीर साहब
फरमायेंगे कि इन दिनों जो मशीनरी (स्पिनिंग
प्लांट) यहां बनती हैं उनको कोई इजाजत

† [] Hindi translation.

दी गई है किसी फैक्ट्री को, स्पिनिंग मिल को कि वह बाहर से प्लांट इम्पोर्ट करे ? अगर दी गई है तो क्यों दी गई है ?]

श्री मनुभाई शाह : जो सदस्य साहब ने कहा ऐसी कोई बात है ही नहीं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया, पहले हिन्दुस्तान में जो मशीनरी बनती है उसको आर्डर देने के बाद इम्पोर्ट की इजाजत दी जाती है और यहां का जो लुधियाने का मैन्युफेक्चरर है उसको पहले आर्डर दिया जाता है।

श्री عبدالغनी : किया وزیر صاحب فرمائیں گے کہ انہوں نے پچھلے دنوں کسی بھٹی کی مل کر اس پلانٹ کا آرڈر دیا اور ایسے فرم کو آرڈر دیا جس کا یہاں ہلدوستان میں کولڈیوریشن ہے - اس نے اسی پلانٹ کا دیا جو کہ یہاں ہلدوستان میں تیار ہوتے ہیں اور اگر دیا تو کھوں دیا -

†[**श्री अब्दुल गनी** क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि उन्होंने पिछले दिनों किसी मिल को इस प्लांट का आर्डर दिया और ऐसे फर्म को आर्डर दिया जिसका यहां हिन्दुस्तान में कोलाबोरेशन है। उन्होंने उसी प्लांट का दिया जैसे यहां हिन्दुस्तान में तैयार होते हैं और अगर दिया तो क्यों दिया ?]

श्री मनुभाई शाह : ऐसी कोई बात है नहीं। माननीय सदस्य ने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी और मैंने उनको जवाब भी दिया कि जो मैन्युफेक्चरर इस मशीनरी को यहां बनाता है उससे सलाह मशविरे के साथ बम्बई में टैक्सटाइल कमिश्नर ने मीटिंग करके यह तय किया कि दो मशीन की इजाजत तब दी जाय जब एक मशीन वे यहां से खरीदें। इसी नीति

के माफिक इम्पोर्ट किया जाता है। खाली एक बम्बई के लिये नहीं सारे हिन्दुस्तान की मिलों के लिये यह लागू है।

श्री عبدالغنی : کیا وزیر صاحب فرمائیں گے کہ دولہمنٹ اسکوم نے تصمت جو یہاں پہلے ہی اسپنڈل کام کر رہے ہیں وہ ابھی کام دینے کے قابل ہیں ان کو ریلیس کرنے کے لئے گورنمنٹ نے ایپورٹ لائسنسز کی اجازت دی ہے اور دی ہے تو کیا آئیئندہ کے لئے ابھی اس پر کوئی بیون لگانے کی رسمت گوارا فرمائیں گے تاکہ فارن ایکسپوٹیلج بچ جائے -

†[**श्री अब्दुल गनी** क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि डिवलपमेंट स्कीम के तहत जो यहां पहले ही स्पिंडल काम कर रहे हैं वह अभी काम देने के काबिल हैं उनको रिप्लेस करने के लिये गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट लाइसेंसज की इजाजत दी है ? और दी है तो क्या आइन्दा के लिये अभी कोई बैन लगाने की जहमत गवारा फरमायेंगे ताकि फारेन एक्सचेंज बच जाये ?]

श्री मनुभाई शाह : हमारी शिकायत तो अपने यहां की इन्डस्ट्रीज से यह है कि वे पुरानी मशीनरी को सालों तक चलाए जाते हैं। जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं ऐसी हालत होती तो यह बात नहीं होती कि हमारी एफिशियेन्सी गिरती। हम तो चाहते हैं कि माडरनाइजेशन जल्दी से जल्दी किया जाय और उमके लिये यहां की मशीनरी भी इस्तेमाल की जाय और बाहर की भी की जाये।

SHRI ARJUN ARORA: May I know if this facility of importing worsted textile plants is only given to established units or also to new units?

SHRI MANUBHAI SHAH: There is no question of new units. We are

SHRI MANUBHAI SHAH: There is no question of new units. We are already short of wool and the existing spindles are not even working to 35 per cent. of capacity.

सरकारी उपक्रमों में पेंशन योजना

*38. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व एक समिति ने सिफारिश की थी कि सरकारी उपक्रमों में पेंशन योजना चालू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि राज्य व्यापार निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम के कर्मचारियों के लिये पेंशन का उपबन्ध उन्हीं निगमों की निधियों से किया जाये ?

†[PENSION SCHEME IN THE PUBLIC UNDERTAKINGS

*38. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a few years back a committee had recommended that pension scheme should be introduced in the public undertakings; and

(b) if so, whether Government propose to make provision for pension for the employees of the State Trading Corporation, Minerals and Metals Trading Corporation and Handicrafts and Handloom Exports Corporation from within the funds of the respective Corporations?]

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI MANUBHAI SHAH): (a) Government is not aware of any recommendation made by any Committee that pension scheme should be introduced in the public undertakings. The recommendations of the Estimates Committee were for making retire-

†[] English translation.

ment benefits uniform in all public undertakings.

(b) However, there is contributory provident funds scheme in the STC, MMTC and H&HEC, and the possibility of extending the gratuity scheme to the employees of STC, MMTC and H&HEC is under examination.

†[वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) सरकार को किसी भी समिति द्वारा की गई ऐसी किसी भी सिफारिश का पता नहीं है कि सरकारी उपक्रमों में पेंशन योजना चालू की जाय। प्राक्कलन समिति की सिफारिश यह थी कि सभी सरकारी उपक्रमों में निवृत्ति-लाभ एक सा कर दिया जाये।

(ख) राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम में अश-दायी भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू है और अतिरिक्त उपदान योजना को राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम के कर्मचारियों के लिए लागू करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।]

श्री भगवत नारायण भार्गव : जब पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन्स प्रायः वही हैं जैसी सरकारी कर्म-चारियों के लिये है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी उन अन्डरटेकिंग्स पर है तो सरकार को इस में क्या आपत्ति है यदि ये अन्डरटेकिंग्स अपने कोष से पेन्शन की व्यवस्था करना चाहें ?

श्री मनुभाई शाह : पेन्शन की जो सारी बातें हैं उन में क्वान्टिटी आफ आल टर्म्स ऑफ सर्विस आ जाता है और जो पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स हैं वे कामशियल करैक्टर की हैं जिस में कुछ अंश तक "हायर एण्ड फायर" के लिये गुजायश रखनी पड़ती है और उसके अन्दर ज्यादातर सब जगह प्राविडेंट फण्ड और ग्रेचुइटी को अच्छा माना जाता है। पेंशन के लिये कोई हिदायत नहीं है।

†[] Hindi translation.